

प्रेस नोट दिनांक:- 27.06.2021

श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा आज दिनांक 27-06 -2021 को थाना इटवा पर इटवा सर्किल के थाना मिश्रौलिया, गोलहौरा और इटवा की अपराध एवं अपराधियों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई। लंबित विवेचनाओं का एक सप्ताह में निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। दो या दो से अधिक बार डकैती, लूट, नकबजनी, वाहन चोरी के अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोलकर निगरानी किए जाने के निर्देश दिए गए। तीनों थानों में चिन्हित 40 अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्यवाही शीघ्र किए जाने के निर्देश दिए गए। थाना इटवा पर नियुक्त बीट पुलिस अधिकारियों से वार्ता करके उनकी बीट बुक चेक की गई। अधिकांश बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने फोन में प्रहरी ऐप डाउनलोड कर लिया गया है जिसमें अपराधियों का डाटाबेस सत्ता प्रदर्शित हो रहा है तथा अपराधियों की निगरानी ऑनलाइन एप से ही की जा सकती है। बीट पुलिस अधिकारियों को अपने गांव के संभ्रांत व्यक्तियों से सतत संपर्क बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त समीक्षा गोष्ठी के समय क्षेत्राधिकारी इटावा रमेश चंद्र पांडे, प्रभारी निरीक्षक इटवा ज्ञानेंद्र राय, प्रभारी निरीक्षक गोलहौरा वेद प्रकाश श्रीवास्तव थानाध्यक्ष मिश्रौलिया पंकज पाण्डेय उपस्थित थे।

प्रेस नोट दिनांक:- 27.06.2021

थाना ढेबरुआ व SSB बढनी,की संयुक्त कार्यवाही में 01 अभियुक्त को 240 शीशी नेपाली शराब के साथ में गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक ढेबरुआ श्री दिनेश चन्द चौधरी के नेतृत्व में आज दिनांक 27.06.2021 को उप निरीक्षक श्री विक्रम अजीत राय, चौकी प्रभारी बढनी, मय हमराह पुलिस एवम SSB बढनी की संयुक्त टीम द्वारा एक व्यक्ति को घरुआर पुल के नीचे से कुल 240 शीशी नेपाली देशी शराब मय मोटरसाइकिल पैंशन प्रो. UP47C5167 के साथ गिरफ्तार करते हुए इनके विरुद्ध मु.अप.सं.133/2021 धारा 60(63) आबकारी अधिनियम का पंजीकरण करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. सूरज यादव पुत्र कन्हैया यादव थाना घरुआर,जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. कुल 240 शीशी नेपाली शराब
2. मोटरसाइकिल पैंशन प्रो. UP47C5167।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. उपनिरीक्षक श्री विक्रम अजित राय, चौकी प्रभारी बढनी थाना ढेबरुआ, जनपद सिद्धार्थनगर मय हमराही पुलिस बल।
02. उप निरीक्षक श्री सुनील कुमार SSB बढनी,जनपद सिद्धार्थनगर मय हमराह पुलिस बल।

प्रेस नोट दिनांक 27.05.21 थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर
थाना मिश्रौलिया पुलिस द्वारा 08 कुंतल लहन बरामद कर मौके पर ही नष्ट किया गया

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा” अपराध की रोकथाम व अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु” चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर व क्षेत्राधिकारी इटवा श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय, के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री पंकज कुमार पाण्डेय, थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा थाना स्थानीय क्षेत्र के ग्राम जोकईला में अवैध शराब निष्कर्षण हेतु चौकी प्रभारी चेतिया मय हमराह व उ0नि0 सर्वेश यादव मय हमराह का विपिन कुमार, का0 शेषनाथ म0का0 साधना मोर्या, म0का0 प्राशी सिंह द्वारा दबिश दिया गया तो ग्राम जोकईला में 08 कुंतल लहन 40 डिब्बा में बरामद हुआ। जिसको मौके पर ही नष्ट कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

प्रेस नोट- दिनांक 27-06-2021 थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर
“10 लीटर अवैध कच्ची शराब के शराब तस्कर गिरफ्तार”

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में श्री सुरेश चंद रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री रमेश चंद्र पाण्डेय, पुलिस उपाधीक्षक इटवा के कुशल निर्देशन में व थानाध्यक्ष मिश्रौलिया के श्री पंकज कुमार पाण्डेय, कुशल नेतृत्व में अवैध शराब बिक्री एवं निष्कर्षण की रोकथाम 01 अभियुक्त से कब्जे 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0 80/20 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

अभियुक्त - गुंजन पुत्र सीताराम साकिन बहोरवाघाट थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

01- हे0का0 सुरेश चन्द गिरी थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

02- हे0का0 अशोक शर्मा थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट- दिनांक 27.06.2021 थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में व श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में श्री अरुण चन्द्र क्षेत्राधिकारी बाँसी द्वारा आज दिनांक 27.06.2021 को थाना खेसरहा पर श्री रवीन्द्र कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक खेसरहा की उपस्थिति में सभी उपनिरीक्षकगण/ चौकी इंचार्ज साकारपार व कुर्थिया व सभी वीट पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण के साथ गोष्ठी की गयी जिसमें श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा बीट पुलिसिग के सम्बन्ध में श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा दिये गये निर्देश रोस्टर के अनुसार बीट में बीट कर्मचारी की रवानगी ,सी-प्लान एप्प के सम्बन्ध में,आपरेशन तमंचा अभियान के सम्बन्ध में ,एच.एस.निगरानी ,सक्रिय अपराधियों का निगरानी ,सम्पत्ति से सम्बन्धित 10 साला अपराधियों का सत्यापन ,107/116 सीआरपीसी निरोधात्मक कार्यवाही ,प्रार्थना पत्रों को गुणवत्तापूर्ण जाचकर निस्तारण ,लम्बित विवेचनाओं को यथाशीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में ,छोटी से छोटी घटना की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही करने के सम्बन्ध ,व अपने अपने क्षेत्र में घुमन्तू व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

सराहनीय कार्य दिनांक 27-06-2021

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्टा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 27-06-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 869 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 295 वाहनों का चालान कर ₹ 2,93,000/-शमन शुल्क वसूल किया गया ।

[#siddharthnagpol](#) [#SP_SDR](#) के निर्देशानुसार थाना शोहरतगढ़ पुलिस बल द्वारा थानाक्षेत्र पैदल गश्त कर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनो को चेक किया गया। [@Uppolice](#) [@AdgGkr](#) [@digbasti](#) [@AnilRai_IPS](#) [@dmsid1](#) [@Cdosid1](#) [@SpAdditional](#) [@SureshAddlSpSdr](#) [#UPPolice](#)

[#siddharthnagpol](#) [#CO_बांसी](#) के नेतृत्व में **थाना खेसरहा पर पुलिस बल के साथ गोष्ठी की गयी** [@Uppolice](#) [@AdgGkr](#) [@digbasti](#) [@AnilRai_IPS](#) [@dmsid1](#) [@Cdosid1](#) [@SpAdditional](#) [@SureshAddlSpSdr](#) [#UPPolice](#)